




वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान

कोविड-19 से लड़ें, काम से समझौता ना करें


सुनिश्चित करें



1 यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई है तो, उसे केंद्र में न आने दें



2 एनटीएफपी की पैकिंग सामग्री साफ सुथरी रखें



3 केंद्र के सदस्य एक दूसरे से कम से कम 2 मीटर दूर बैठें



4 यदि केंद्र में जगह कम है तो लोगों को अलग-अलग शिफ्टों में काम पर आने या स्वच्छता के साथ घर से काम करने की सलाह दें

5 नकद लेन-देन कम करके सभी संग्रहकर्ताओं के बैंक खाते में राशि जमा करवाएं



यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की

हेल्पलाइन नंबर: 011-23978046 | टोल फ्री नंबर: 1075 पर संपर्क करें

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डिजिटल सामग्री के अनुसार